



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2650]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2017/भाद्र 22, 1939

No. 2650]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2017/BHADRA 22, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2017

का.आ. 3027(ब).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1270 (अ), तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा प्रारूप अधिसूचना उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को 31 मार्च, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और 354.61 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और राष्ट्रीय उद्यान में वनों, घास स्थलों तथा झीलों सहित, जो जीव-जन्तु और वनस्पति की विभिन्न किस्मों को बढ़ावा देती है, विविध प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं;

और, राष्ट्रीय उद्यान की महत्त्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं चीतल (एकड़स एकड़स), चुहा (वनदीकोटा बेनगालेंसीस), नीलगाय (बोसेलाफुस ट्रागोकमेलुस), गीदड़ (कैनिस अयरेयुस), कुत्ता (कैनिस फैमीलीअरस), भैरीया (कैनिस लुपुस), सांभर (केरवअस युनिकोलोर), जंगली कुत्ता (कयोअलपीनेस), चीता बिल्ली (फेलिस बेंगालेंसीस), गिलहरी (फनामबलुलुस पलमारूम), चिन्कारा (गाजेला गाजेले), चुबे (कोलुंडा इल्लेओटी), नयओला (हेरपेस्टेस इडवारदसी), साही (हयस्ट्रीक्स इंडका), पक्षी पंतदुबी (टचयवापतु रूफिकोल्लिस), हावासो (पेलेकनुस फिलपपेंसिस), पेन-कोवाआ (फलाकरोकोरक्स नीगर), पेनवा (अनहीगा मेलानोगसतेर), नीर (ऐरिआ किनेरिआ), लाल अनजन (अरदे पुरपुरेअ), बाडा बगला (केसमेरूओदीअस अलबुस), करचीअ बगला (इगरेट्टा गरजेट्टा), कंचा बगला (बुटोरीडे स्टरीअटुस), अंधा बगला (अरदेओलाह बेचुस), सुरखिअ बगला (बुबुलकुस इबिस), करचीअ बगला (मेसफोक्स इंटरमेडिअ), वाअक (नयकटीकोरक्स नयकटीकोरक्स), गोइ (लक्ओबरयचुस मीयटेस). सरीसृप गीरगीट (कलोटेस वेरसीकोलार), मगर (करोकोडीलुस

पलुसटीरीस), धामन (डेंनदरोफिस पीकटुस), कछुआ(मेलानोचेलयुस टरीजुगा), छिपकली (हेमिदाचयलुस फलावीवीरिदेस),लोटेन (मबुय केरीनाटा), अजगर(पायथोन मोरूलुस), नाग(नाजा नाजा), गोह(वरनुस बेंगालेंसिस), दाबोइअ(वीपेरअ रुसेल्ली), मछली काटला (काटला काटला), नरेन (कीहींना मरीगाला), अल्ली(कीहींना रेबा), मोहीनी(लावेओ बाटा), कलोट(लावेओ कलवासु), कुट-रोहु(लेवेओ फिमवरीअटुस), गोली(लेवेओ गोनुइस),रोहु(लावेओ रोहीते), बाम(मेसता केमबेलुस अरमाटुस), कोहीरा(मयसटुस अओर), सींघाडा (सयसटुस सेइंघाला), गगरा(ओपहीपकेफलुस मरूलीयस), सावल(ओफिपकेफलुस स्ट्राइटुस), पदीन (वाल्लागो अट्टु).

और, राष्ट्रीय उद्यान की महत्त्वपूर्ण पेड़ पुष्प प्रजातियां शामिल है बबुल(अकैसिअ नीलोटीका, वाइल्ड), खैर(अकैशिआ कटैचु, वाइल्ड), सफेद खैर(अकैशिअ फेरुंगीइअ, डीसी), रेंयन्जा(अकैशिया लेयकोफलोइअ, वाइल्ड), हलदु(अदीना कोरदीफोलिया, हौक.एफ.), वेल(एइगले मरमेलोस, कोरैइअ), महारूख(अइलान्थुस इक्सेलसा, रोक्वा.), अकोल(एइलांगीयम सालवीफोलियम, लिन्न), सीरन(अलवीजिया सतीपुलाटा,बोइव), काला सीरस (अलवीजिया, बेंथ), चीचवा(अलविजिअ ओडोरटीससीमा), सफेद सीरस(अलवीजीआ परोसेरा,बेंन्था), धाओरा(अनोगेइससुस लटीफोलिअ, वाल्ल), कारधाइ(अनोगेइससुस पेनुदुला, इडगेवा), सीताफल(अनोना सक्यूमोसा लिन्न). झाडियों और जड़ी बूटियों का चौरचौरा (अचयरंथेस असपेरा,लिन्न), अदुसा(अधाटोडा वसीका, नेइस), अजगंधा(अगोरातुम कोनयजोइदेस,लिन्न), अकोल(अलांगीयम सालवीफोलियम (लिन्न.एफ.) वांग), झाओंधारली(अनटीदेसमा घाइसेमबील्ला केइरतन), सीअरकांता(अरगेमोने मेक्काना,लिन्न), बनकापास(अजांजा इअमपास, केव.एलेफ), आक(कलोटरोपीस गीगंटेअ, वीआर.),मादर(कालोटरोपीस परोसेरा, आर.वीआर.), कारील(कापपेरीस अफयल्ला, रोथ), उलाट-कान्टा(कापपेरीस जेलानीका,लिन्न), करोंदा(करीस्सा ओपाका,स्टाफफा), तरवार(कशिया अररीकुलाटा,लिन्न), तारोटा(कसशिअ टोरा,लिन्न), गीलची(कसेअरीअ गरावेओलेंस,डालज).

और, माधव राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिक की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों और उद्योगों के वर्गों और उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की, उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से अधिसूचित शहरी और 'आबादी' इलाकों की तरफ 100 मीटर और अन्य इलाकों में 2 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को माधव राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन, माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से अधिसूचित शहरी और 'आबादी' इलाकों की तरफ 100 मीटर और अन्य इलाकों में 2 किलोमीटर के विस्तार के साथ 277.20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतरों के साथ **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची इसके प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी ;
- (iv) राजस्व;
- (v) नगर विकास;
- (vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका और शहरी विकास;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलेक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाध संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जिन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिष्काव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव की पहचान की (ईएसएम) चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन-विधमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन ईएसएम की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट**:- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचालन के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण**:- लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्हीं नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा।
(2)	प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि)।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों को या उनके विस्तार को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया जाए, केवल नए गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा।
(3)	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(6)	फार्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(7)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(8)	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(9)	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(10)	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(11)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
(12)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संबंधित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
(14)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
(15)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंहीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
(16)	बकरी पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(17)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(18)	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(19)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के विछाए जाने और	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के विछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

	अन्य बुनियादी ढांचे ।	
(20)	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
(22)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(25)	स्थानीय समुदायों द्वारा डेयरियों, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्यकी के साथ चालू कृषि और बागवानी पद्धतियां ।	स्थानीय उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(26)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाहों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(27)	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
(33)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(34)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(35)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(36)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
(38)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(39)	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(40)	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(41)	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(42)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(क)	प्रभागीय आयुक्त, ग्वालियर	—अध्यक्ष;
(ख)	जिला कलेक्टर, शिवपुरी	—सदस्य;
(ग)	अधीक्षक इंजीनियर, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग,	—सदस्य;
(घ)	अधीक्षक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग,	—सदस्य;
(ङ)	जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिवपुरी	—सदस्य;
(च)	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	—सदस्य;
(छ)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव	—सदस्य;
(ज)	गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे मध्य प्रदेश द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा	
(झ)	मध्य प्रदेश कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला राज्य के ख्याति प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ञ)	निदेशक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी	सदस्य सचिव;

6. निर्देश – निबंधन—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।



8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/65/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रमुख बिंदुओं के निर्देशांको के मानचित्र



उपाबंध-II

माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) के पारिस्थितिक संवेदी जोन में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ग्रामों (दो किलोमीटर के भीतर) की सूची

क्र.सं	ग्रामों के नाम	निर्देशांक
1	विनेगा	उ25°29'59.45" पू77°40'13.46"
2	चिटोरा	उ25°31'23.75" पू77°39'33.92"
3	चिटोरी	उ25°31'00" पू77°38'52"
4	अमरखोआ	उ25°33'26.48" पू77°39'35.34"
5	रामपुर	उ25°25'57.8" पू77°56'54.1"
6	सुजियापुरा	उ25°36'54.77" पू77°40'44.83"
7	मडेवा	उ25°35'40.55" पू77°40'13.51"
8	डवारा	उ25°35'35.28" पू77°41'23.56"
9	बारा	उ25°36'35.65" पू77°42'59.36"
10	कराई (ग्वालियर रोड)	उ25°37'28.91" पू77°45'44.77"
11	बनमोर	उ25°32'48.0" पू77°43'51.0"
12	कंकर	उ25°33'03.75" पू77°44'10.39"

13	सतनवारा	उ25°33'04.00" पू77°42'52.90"
14	सतनवारा खुर्द	उ25°31'03.78" पू77°044'12.53"
15	थेह	उ25°31'10.85" पू77°45'43.29"
16	वर्द्धखेड़ी	उ25°29'35.43" पू77°42'58.07"
17	डोंगर	उ25°30'40.24" पू77°47'48.38"
18	खुरेरा	उ25°23'23.47" पू77°52'35.39"
19	पिपराई	उ25°32'51.77" पू77°46'15.81"
20	चांद	उ25°33'18.48" पू77°46'32.51"
21	सकलपुर	उ25°34'44.31" पू77°46'26.44"
22	कल्याणपुर	उ25°34'31.8" पू77°49'38.6"
23	ऐरावन	उ25°32'51.77" पू77°46'15.81"
24	धमकन	उ25°33'59.66" पू77°46'15.81"
25	पतिघाटी	उ25°33'44.60" पू77°50'00.6"
26	वेरकुडी	उ25°32'25.37" पू77°48'28.20"
27	मदीखेडा	उ25°40'47.14" पू77°42'59.90"
28	छत्तरपुर	-
29	देहरी	उ25°27'52.51" पू77°53'47.78"

30	डांगीपुर की टपरिया	उ25°27'09.17" पू77°55'20.50"
31	सतई की टपरिया	उ25°23'54.1" पू77°55'55.9"
32	अमोला	उ25°24'32.3" पू77°56'15.6"
33	रामपुरा	उ25°25'57.8" पू77°56'54.1"
34	भितई की टपरिया	उ25°25'10.5" पू77°56'43.9"
35	ताल की टपरिया	उ25°23'29.8" पू77°56'30.4"
36	करमई छोटी	उ25°23'00.3" पू77°55'14.1"
37	मीटलोनी	उ25°24'31.5" पू77°55'19.1"
38	खुतेला/खुटेला कॉलोनी	उ25°23'24.9" पू77°51'45.2"
39	मोहम्मदपुर	उ25°24'12.2" पू77°52'15.1"
40	विलपुर	उ25°24'15.2" पू77°50'23.2"
41	दडोल	उ25°24'23.5" पू77°50'14.5"
42	भदवावाड़ी	उ25°24'47.2" पू77°49'16.4"
43	सुरवाया	उ25°25'06.8" पू77°49'52.4"
44	सारा कॉलोनी	उ25°25'45.4" पू77°46'54.4"
45	कराई (झांसी रोड़)	उ25°25'02.3" पू77°47'36.8"
46	हटोद और चाक हटोद	उ25°26'21.64"

		पू77°45'43.23"
47	गंगुली	उ25°26'52.2" पू77°46'54.0"
48	पिपरोनिया	उ25°26'07.8" पू77°46'41.2"
49	महुआखेडा	उ25°28'47.62" पू77°44'13.06"
50	चाक अर्जुनगांव	उ25°39'10.24" पू77°46'25.81"
51	हृतीगढ(हरनगर)	उ25°27'19.72" पू77°53'47.78"
52	कोटा	उ25°26'02.20" पू77°44'32.26"
53	घसारी	उ25°25'17.48" पू77°43'51.88"
54	भगोरा	उ25°24'46.21" पू77°45'8.58"
55	मझेरा	उ25°22'42.63" पू77°44'22.28"
56	तिलाघाट	उ25°20'43.11" पू77°41'22.43"
57	बदागांव	उ25°20'57.80" पू77°40'15.22"
58	गटवाया	उ25°26'32.00" पू77°51'10.1"
59	वाखेछ	-

माधव राष्ट्रीय पार्क, शिवपुरी (मध्य प्रदेश) के पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में 100 मीटर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	निर्देशांक
1	2	3
1	बडोदी	उ. 25°21'29.43" पू 77°46'25.60"
2	झिंगुरा	उ. 25°26'56.7" पू 77°41'4.7"

3	ठाकुरापुरा	उ. 25°27'08.92" पू 77°39'48.40"
4	कठमई	उ. 25°28'10.9" पू 77°41'10.8"
5	उद्यान सीमा रेखा से शिवपुरी शहर की सीमा रेखा	उ. 25°25'27.51" पू 77°39'13.36"

उपाबंध-III**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तारिख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th September, 2017

S.O. 3027(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1270(E), dated the 31st March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette were made available to the public on the dated the 31st March, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Madhav National Park is located in Shivpuri District of Madhya Pradesh and is spread over an area of 354.61 square kilometers;

AND WHEREAS, the National Park has varied type habitats including forests, grasslands and lakes which supports diverse type of fauna and flora;

AND WHEREAS, the important faunal species of the National Park include Chital (*Axis axis*), Chuha (Bandicota Bengalensis), Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), Gidhar (*Canis aureus*), Kutta (*Canis Familiaris*), Bheriya (*Canis Lupus*), Sambar (*Cervus unicolor*), Jangli Kutta (*Cuon alpines*), Chita Billi (*Felis Bengalensis*), Gilheri (*Funambulus Palmarum*), Chinkara (*Gazella gazelle*), Chube (*Colunda ellioti*), Nyula (*Herpestes edwardsi*), Sahi (*Hystrix indica*), BIRDS are Pandubi (*Tachybaptus ruficollis*), Hawaso (*Pelecanus philippensis*), Pan-kowaa (*Phalacrocorax nigar*), Panwa (*Anhinga melanogaster*), Nari (*Area cinerea*), Lal anjan (*Ardea purpurea*), Bada bagla

(*Casmerodius albus*), Karchia bagla(*Egretta garzetta*), Kancha bagla(*Butoride striatus*), Andha bagla(*Ardeolah bacchus*), Surkhia bagla(*Bubulcus ibis*), Karchia bagla(*Mesphoyx intermedia*), Waak(*Nycticorax nycticorax*), Goi(*Ixobrychus minutus*). REPTILES are Girgit (*Calotes versicolor*), Magar(*Crocodylus palustris*), Dhaman (*Dendrophis pictus*), Kachhua(*Melanochelyus trijuga*), Chhipkali(*Hemidactylus flavivirides*), Loten(*Mabuya carinata*), Ajjgar(*Python morulus*), Nag(*Naja naja*), Goh(*Varanus Bengalensis*), Daboia(*Vipera ruselli*). FISHES are Catla(*Catla catla*), Naren(*Cirrhina mrigala*), Alli(*Cirrhina reba*), Mohini(*Labeo bata*), Kalot(*Labeo Kalbasu*), Kut-Rohu(*Labeo fimbriatus*), Goli(*Labeo gonuis*), Rohu(*Labeo rohita*), Bam(*Mesta cembelus armatus*), Kohira(*Mystus aor*), Singhada (*Mystus seenghala*), Gagra(*Ophipcephalus marulius*), Sawal(*Ophipcephalus Straitus*), Padin(*Wallago attu*).

AND WHEREAS, the important floral species of the National Park include TREES such as

Babul(*Acacia nilotica, wild*), Khair(*Acacia catechu, wild*), Safed Khair(*Acacia ferruginea, Dc*), Reunjha(*Acacia leucophloea, wild*), Haldu(*Adina cordifolia, Hook.f.*), Bel(*Aegle marmelos, Correa*), Maharukh(*Ailanthus excelsa, Roxb.*), Akol(*Ailangium Salvifolium, Linn*), Siran(*Albizzia stipulata, Boiv*), Kala Siris(*Albizzia lebbeck, Benth*), Chichwa(*Albizzia odoratissima*), Safed Siris(*Albizzia procera, Benth*), Dhaora(*Anogeissus Latifolia, Wall*), Kardhai(*Angeissus pendula, Edgew*), Sitaphal(*Anona squamosa Linn*). SHRUBS AND HERBS such as Chirchira(*Achyranthes aspera, Linn*), Adusa(*Adhatoda vasica, Nees*), Ajagandha(*Ageratum conyzoides, Linn*), Akol(*Alangium salvifolium(Linn.f.) Wang*), Jhaondharli(*Antidesma ghaesebilla Caertn*), Siarkanta(*Argemone mexicana, Linn.*), Bankapas(*Azanza iampas, Cav.Alef*), Aak(*Calotropis gigantea, Br.*), Madar(*Calotropis procera, R.Br.*), Karil(*Capparis aphylla, Roth*), Ulat-Kanta(*Capparis zelanica, Linn*), Karonda(*Carissa opaca, Staff*), Tarwar(*Cassia auriculata, Linn*), Tarota(*Cassia tora, Linn*), Gilchi(*Casearia graveolens, Dalz*).

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Madhav National Park as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub- section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 100 meters on the notified urban and 'Abadi' area side and 2 kilometers on the rest of area from the boundary of the Madhav National Park, in the State of Madhya Pradesh as the Madhav National Park Eco-sensitive zone (hereinafter called as the Eco-sensitive zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco- sensitive zone is spread over an area of 277.20 square kilometer with an extent of 100 meters on the notified urban and 'Abadi' area side and 2 kilometers on the rest of area from the boundary of the Madhav National Park.

(2) The map of Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure I**.

(3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest and Wildlife;
- (iii) Agriculture and Horticulture;
- (iv) Revenue;
- (v) Urban Development;
- (vi) Tourism including eco-tourism;
- (vii) Rural Development;
- (viii) Irrigation and Flood Control;
- (ix) Municipal and urban development;
- (x) Panchayati Raj;
- (xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary

of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made there under.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016,.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws

9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
10.	Commercial use of firewood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
11.	New wood based industry	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Goat Farming	Regulated under applicable laws.
17.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

18.	Migratory graziers	Regulated under applicable laws.
19.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
20.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
23.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
25.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
26.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
27.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
28.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
29.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
30.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
32.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
38.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

- | | |
|--|-------------------|
| (i) Divisional Commissioner, Gwalior | —Chairman |
| (ii) District Collector, Shivpuri | —Member |
| (iii) Superintendent Engineer, Public Health Engineering | —Member |
| (iv) Superintendent Engineer, Public Work Department | —Member |
| (v) CEO of District Panchayat, Shivpuri | —Member |
| (vi) Representative of the Madhya Pradesh Pollution Control Board | —Member |
| (vii) Member, State Biodiversity Board | —Member |
| (viii) One representative of Non Governmental Organisation
working in the field of environment to be nominated by the
Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case | —Member |
| (ix) One expert in the area of ecology and environment from a
reputed institution of University in the State to be
nominated by the Government of Madhya Pradesh for a
term of three years in each case | —Member |
| (x) Director, Madhav National Park, Shivpuri | —Member Secretary |

(6) Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.


8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/65/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Map of the Eco Sensitive Zone along with coordinates of prominent points



Annexure II

List of villages falling within the Eco-sensitive zone within 2 kilometers List of villages Proposed to be included (within two kilometer) in the Eco-sensitive areas of Madhav National Park, Shivpuri (M.P.)

S.No.	Name of Village	Co-ordinate
1	Vinega	N25 ⁰ 29'59.45'' E77 ⁰ 40'13.46''
2	Chitora	N25 ⁰ 31'23.75'' E77 ⁰ 39'33.92''
3	Chitori	N25 ⁰ 31'00'' E77 ⁰ 38'52''
4	Amarkhoa	N25 ⁰ 33'26.48'' E77 ⁰ 39'35.34''
5	Rampur	N25 ⁰ 25'57.8'' E77 ⁰ 56'54.1''
6	Sujiyapura	N25 ⁰ 36'54.77'' E77 ⁰ 40'44.83''
7	Madewa	N25 ⁰ 35'40.55'' E77 ⁰ 40'13.51''
8	Dawara	N25 ⁰ 35'35.28'' E77 ⁰ 41'23.56''
9	Bara	N25 ⁰ 36'35.65'' E77 ⁰ 42'59.36''
10	Karai (Gwalior road)	N25 ⁰ 37'28.91'' E77 ⁰ 45'44.77''
11	Banmor	N25 ⁰ 32'48.0'' E77 ⁰ 43'51.0''
12	Kankar	N25 ⁰ 33'03.75'' E77 ⁰ 44'10.39''
13	Satanwara	N25 ⁰ 33'04.00'' E77 ⁰ 42'52.90''
14	Satanwara Khurd	N25 ⁰ 31'03.78'' E77 ⁰ 44'12.53''
15	Theh	N25 ⁰ 31'10.85'' E77 ⁰ 45'43.29''
16	Vardhkhedi	N25 ⁰ 29'35.43'' E77 ⁰ 42'58.07''
17	Dongar	N25 ⁰ 30'40.24'' E77 ⁰ 47'48.38''
18	Khurera	N25 ⁰ 23'23.47''

		E77 ⁰ 52'35.39''
19	Piparai	N25 ⁰ 32'51.77'' E77 ⁰ 46'15.81''
20	Chand	N25 ⁰ 33'18.48'' E77 ⁰ 46'32.51''
21	Sakalpur	N25 ⁰ 34'44.31'' E77 ⁰ 46'26.44''
22	Kalyanpur	N25 ⁰ 34'31.8'' E77 ⁰ 49'38.6''
23	Aeravan	N25 ⁰ 32'51.77'' E77 ⁰ 46'15.81''
24	Dhamkan	N25 ⁰ 33'59.66'' E77 ⁰ 46'15.81''
25	Patighati	N25 ⁰ 33'44.60'' E77 ⁰ 50'00.6''
26	Verkudi	N25 ⁰ 32'25.37'' E77 ⁰ 48'28.20''
27	Madikheda	N25 ⁰ 40'47.14'' E77 ⁰ 42'59.90''
28	Chhatarpur	-
29	Dehri	N25 ⁰ 27'52.51'' E77 ⁰ 53'47.78''
30	Dangipur ki Tapariyan	N25 ⁰ 27'09.17'' E77 ⁰ 55'20.50''
31	Satai ki Tapariya	N25 ⁰ 23'54.1'' E77 ⁰ 55'55.9''
32	Amola	N25 ⁰ 24'32.3'' E77 ⁰ 56'15.6''
33	Rampura	N25 ⁰ 25'57.8'' E77 ⁰ 56'54.1''
34	Bhitay ki Tapariya	N25 ⁰ 25'10.5'' E77 ⁰ 56'43.9''
35	Tal ki Tapariya	N25 ⁰ 23'29.8'' E77 ⁰ 56'30.4''
36	Karmai Chhoti	N25 ⁰ 23'00.3'' E77 ⁰ 55'14.1''
37	Mitloni	N25 ⁰ 24'31.5'' E77 ⁰ 55'19.1''
38	Khtela / Khutela Colony	N25 ⁰ 23'24.9'' E77 ⁰ 51'45.2''
39	Mohammadpur	N25 ⁰ 24'12.2'' E77 ⁰ 52'15.1''
40	Vilpur	N25 ⁰ 24'15.2''

		E77°50'23.2''
41	Dadol	N25°24'23.5'' E77°50'14.5''
42	Bhadawavadi	N25°24'47.2'' E77°49'16.4''
43	Surwaya	N25°25'06.8'' E77°49'52.4''
44	Sara colony	N25°25'45.4'' E77°46'54.4''
45	Karai (Jhansi road)	N25°25'02.3'' E77°47'36.8''
46	Hatod and Chak Hatod	N25°26'21.64'' E77°45'43.23''
47	Ganguli	N25°26'52.2'' E77°46'54.0''
48	Piproniya	N25°26'07.8'' E77°46'41.2''
49	Mahuakheda	N25°28'47.62'' E77°44'13.06''
50	Chak Arjungawan	N25°39'10.24'' E77°46'25.81''
51	Hatigarh (Harnagar)	N25°27'19.72'' E77°53'47.78''
52	Kota	N25°26'02.20'' E77°44'32.26''
53	Ghasari	N25°25'17.48'' E77°43'51.88''
54	Bhagora	N25°24'46.21'' E77°45'8.58''
55	Majhera	N25°22'42.63'' E77°44'22.28''
56	Tilaghat	N25°20'43.11'' E77°41'22.43''
57	Badagaon	N25°20'57.80'' E77°40'15.22''
58	Gatwaya	N25°26'32.00'' E77°51'10.1''
59	Vakhacha	-

List of villages Proposed to be included (within 100 meters) in the Eco-Sensitive areas of Madhav National Park, Shivpuri (Madhya Pradesh)

S.No.	Name of Villages	Co-ordinate
1	2	3
1	Badodi	N25 ⁰ 21'29.43'' E77 ⁰ 46'25.60''
2	Jhingura	N25 ⁰ 26'56.7'' E77 ⁰ 41'4.7''
3	Thakurpura	N25 ⁰ 27'08.92'' E77 ⁰ 39'48.40''
4	Kathmai	N25 ⁰ 28'10.9'' E77 ⁰ 41'10.8''
5	Town boundary of Shivpuri from Park boundary	N25 ⁰ 25'27.51'' E77 ⁰ 39'13.36''

Annexure-III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.